

प्रेस नोट दिनांक 26.02.2023

थाना देवरनियां -जनपद बरेली।

थाना देवरनियां बरेली पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से एक नाजायज बन्दूक 12 बोर, एक तमंचा 12 बोर, दो तमंचा 315 बोर तथा एक अध बना तमंचा 315 बोर व शस्त्र के उपकरण व शस्त्र बनाने के उपकरण (फैक्ट्री) बरामद।

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा अपराधो की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं अवैध शस्त्र/शस्त्र फैक्ट्री की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बरेली के निर्देशन मे एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी बहेडी के निकट पर्यवेक्षण में थाना देवरनियां पुलिस द्वारा दिनांक 25/26.02.2023 की रात्रि चैकिंग व प्रभावी कार्यवाही हेतु पर्याप्त पुलिस बल के साथ भ्रमण सील रहकर रात्रि में गश्त व चैकिंग की जा रही थी कि ग्राम अभयपुर से ग्राम महमूदपुर को जाने वाले रास्ते पर शमशान भूमि के जंगल में चैकिंग के दौरान अभियुक्त **इशतयाक पुत्र मकबूल नि0 ग्राम अभयपुर थाना देवरनियाँ, जनपद बरेली जो** अपने साथियों के साथ अवैध शस्त्र बना रहा था को गिरफ्तार किया गया तथा उसके साथी मौके से भागने मे सफल रहे। कब्जे/मौके से एक नाजायज बन्दूक 12 बोर, एक तमंचा 12 बोर, दो तमंचा 315 बोर तथा एक अध बना तमंचा 315 बोर व शस्त्र के उपकरण व शस्त्र बनाने के उपकरण (फैक्ट्री) बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर भागे हुए साथियों के नाम **जाबिर पुत्र साबिर नि0 ग्राम मुडिया जागीर थाना देवरनिया जिला बरेली तथा इमरान पुत्र रईस नि0 ग्राम मुडिया जागीर थाना देवरनिया जिला बरेली बताया** और बताया कि मैं अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध शस्त्र बनाकर बेचता हूँ, जिससे हमारी रोजी-रोटी चलती है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे थाना देवरनियां पर मु0अ0सं0 0058/2023 धारा 3/25 व 5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभि0 का विवरण -

इशतयाक पुत्र मकबूल नि0 ग्राम अभयपुर थाना देवरनियाँ, जनपद बरेली।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त इशतयाक

मु0अ0सं0 0063/1992 धारा 302/201 आईपीसी थाना देवरनियां बरेली

मु0अ0सं0 0547/2011 धारा 5/25 आर्म्स थाना देवरनियाँ बरेली

मु0अ0सं0 0104/2012 धारा 60 Ex. Act थाना देवरनियाँ बरेली

मु0अ0सं0 0160/2018 धारा 354/352/323 आईपीसी थाना देवरनियाँ बरेली

मु0अ0सं0 0058/2023 धारा 3/25 व 5/25 आर्म्स एक्ट

फरार अभियुक्तो का विवरण

1.जाबिर पुत्र साबिर नि0 ग्राम मुडिया जागीर थाना देवरनिया जिला बरेली

2.इमरान पुत्र रईस नि0 ग्राम मुडिया जागीर थाना देवरनिया जिला बरेली

बरामदगी का विवरण -

एक नाजायज बन्दूक 12 बोर, एक तमंचा 12 बोर, दो तमंचा 315 बोर तथा एक अध बना तमंचा 315 बोर व शस्त्र के उपकरण व शस्त्र बनाने के उपकरण (फैक्ट्री)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्र कुमार थाना देवरनियां जिला बरेली

3. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना देवरनिया जिला बरेली

5. का0 3253 गुरुदेव थाना देवरनियां बरेली

7. का0 3405 उमेश भाटी थाना देवरनियां बरेली

2. उ0नि0 श्री रहमत अली थाना देवरनियां जनपद बरेली

4. उ0नि0 श्री सतेन्द्र कुमार थाना देवरनियां बरेली

6. का0 3280 अंकित भाटी थाना देवरनियां बरेली

8. का0 642 मौ0 हाशिम पाशा थाना देवरनियां बरेली